

ECONOMICS

Paper-I

व्यष्टि आर्थिक सिद्धान्त (Micro Economic Theory)

Time : Three Hours]

[Max. Marks: 100 for Arts 75 for Science

नोट- प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम एक प्रश्न का चयन करते हुए, कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जायेगी। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर-पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों के उत्तर लिखें।

किसी भी एक प्रश्न के अन्तर्गत पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर उत्तर-पुस्तिका में अलग-अलग स्थानों पर हल करने के बजाय एक ही स्थान पर हल करें।

1. Answer of question number 1 (i) to (x) should not exceed 20 words. 20/15

प्रश्न संख्या 1 (i) से (x) का उत्तर 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 20/15

(i) उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिये।

(ii) माँग की लोच से क्या अभिप्राय है?

(iii) एकाधिकार को परिभाषित कीजिये।

(iv) सामान्य लाभ को परिभाषित कीजिये।

(v) कीन्स के ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धान्त में सट्टे का प्रयोजन से आप क्या समझते हैं?

(vi) तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं?

(vii) पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं?

(viii) बाह्य किफायतें से क्या अभिप्राय है?

(ix) उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं?

(x) एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा को परिभाषित कीजिये।

2. Answer of question number 2 (i) to (v) should not exceed 100 words : 20/15

प्रश्न संख्या 2 (i) से (v) का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए : 20/15

(i) Differentiate between perfect competition and monopoly.

पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाधिकार में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

What do you understand by risk theory of Profits?

लाभ का जोखिम सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?

(iii) What are the properties of isoquants?

समोत्पत्ति वक्रों के लक्षण क्या हैं?

(iv) What is the difference between average Fixed Cost and average Variable Cost ?

औसत स्थिर लागत व औसत परिवर्तनशील लागत में क्या अन्तर है?

Differentiate between substitute goods and complementary goods.

स्थानापन्न वस्तुएँ व पूरक वस्तुएँ में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

Section-A (खण्ड-अ)

3. With the help of utility analysis, derive and consumer's equilibrium. 20/15

उपयोगिता विश्लेषण की मदद से उपभोक्ता के संतुलन को व्युत्पन्न कीजिये। 20/15

Or (अथवा)

Write short notes on the following:

निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

(i) Giffin Goods. गिफिन वस्तुएँ। 10/7½

(ii) Price consumption curve. कीमत उपभोग वक्र। 10/7½

Section-B (खण्ड-ब)

4. With the help of Isoquant and Isocost curves, explain the least cost combination of factors. <http://www.pdusuonline.com> 20/15

समउत्पाद वक्र तथा समलागत वक्र की सहायता से साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को समझाइये। 20/15

Or (अथवा)

In case of monopoly, explain the price and output determination in short and long period. Show that the monopoly price is always higher than the competitive price. 20/15

एकाधिकार की स्थिति में लघु व दीर्घकाल में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण को समझाइये। प्रदर्शित कीजिये कि एकाधिकारी कीमत प्रतियोगी कीमत से ऊँची होती है। 20/15

Section-C (खण्ड-स)

5. Critically discuss the Keynes liquidity preference theory of interest. 20/15

कीन्स के ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। 20/15

Or (अथवा)

With the help of MPP, VMP and MRP, explain the modern theory of factor price determination. <http://www.pdusuonline.com> 20/15

MPP, VMP और MRP की सहायता से साधन कीमत निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त समझाइये। 20/15